

Event Report

Stakeholders Sensitisation Programme, Bhilwara

July 21, 2023

ProScop: An Overview

CUTS has been involved in Developing a Culture of Sustainable Consumption and Lifestyle through Organic Production and Consumption in the State of Rajasthan ever since October 2013, which got concluded in December 2021. The work had made a deep impact and contributed to promoting organic consumption in the state.

Looking at the success and in order to further consolidate its work on the issues, CUTS in partnership with the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) has designed an ambitious five years project clubbing sustainable production, consumption and practices together in its intervention. The so-called project 'Developing a Culture of Sustainable Consumption and Lifestyle Through Promoting Organic Consumption and Production and Adopting Sustainable Consumption Practices by Engaging Consumers in the State of Rajasthan, India' (ProScop)' will be implemented in 12 targeted districts and all seven divisions of Rajasthan for five years.

Sustainable Consumption and Production (SCP)

SCP is about doing more and better with less. It is also about decoupling economic growth from environmental degradation, increasing resource efficiency and promoting sustainable lifestyles. We are currently consuming more resources than ever, exceeding the planet's capacity for generation. In the meantime, waste and pollution grow, and the gap between rich and poor is widening. Health, education, equity and empowerment are all adversely affected. Crucially, SCP can contribute substantially to poverty alleviation and the transition towards low-carbon and green economies. CUTS has documented SCP practices in India and studied sustainable consumption from a consumer perspective at the National level.

One step ahead, CUTS is implementing SCP intervention in the selected cities of Rajasthan by conducting research to understand the perception, practices and pattern of consumption. Also, a sustainable consumption index will be prepared for the cities. Through the intervention, local consumers and stakeholders will be sensitised towards a sustainable lifestyle. This approach will be an advocacy tool to streamline existing policies of the government and push for more dedicated efforts to support SCP from the consumer perspective.

Proceedings

Gaurav Chaturvedi welcomed all the participants and told them about the objective of the meeting and gives a brief introduction about the project ProScop. He told that with the support from the Swedish Society for Nature Conservation, we are implementing this project in rural and urban areas of the Bhilwara district. He also mentioned about industrial pollution in Bhilwara as it is well known for its textile business.

Rajdeep Pareek emphasised the need for SCP. He mentioned that SCP is the key factor for achieving sustainable development goals. There is a need to change our lifestyle for judicious use of natural resources and minimise pollution. He highlighted a recent survey where we inquired about basic habits, like carrying cloth bags to the market. Surprisingly, most respondents answered negatively. He emphasised the pressing issue of waste management in urban areas. Furthermore, he urged for the adoption of innovative solutions to tackle pollution in both urban and rural regions.

Ravi Chandel, Junior Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board stated that innovative techniques are being used by industries. He mentioned that now the ash produced from the industries is 100 percent used by cement industries, thus we are recycling the ash by other industries. He said that now we are promoting the use of solar energy and rainwater harvesting techniques in all the new industrial areas. He also mentioned about the green rating scheme for industries promoted by Rajasthan State Pollution Control Board. He also informed that a close monitoring system for textile

Pooja Morya, Junior Engineer at the PHED Department in Bhilwara, discussed the vital importance of water availability and its use in households. She highlighted the "Har Ghar Jal" campaign, ensuring clean drinking water access for every home. Morya urged citizens to report water seepage, responding to a

query about a toll-free helpline. She stressed the scarcity of drinking water in the Bhilwara district, noting significant governmental efforts toward resolution.

Pushendra Bairagi Programme Officer, Swatch Bharat mission, Bhilwara Nagar Nigam addressed waste management. He explained the practice of segregating wet and dry waste, producing city compost for local parks. Bairagi encouraged household waste segregation and elaborated on municipal corporations' waste management strategies. He also referenced the 2016 waste management rule by Rajasthan State Pollution Control Board, outlining categories for industries, cities, and hospitals.

Gauhar Mahmood, Centre Head CUTS, Chittorgarh gave a vote of thanks to all the participants and asked them to adopt these sustainable practices for a sustainable future.

Glimpses & Media Coverage



कट्स संस्थान द्वारा हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन

राजस्थान की राजनीति

भीलवाड़ा। कट्स संस्थान द्वारा सतत उपभोग की जीवन शैली एवं संस्कृति विकसित करने हेतु परियोजना के तहत हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन होटल महाराजा, भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया।



कचरा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आदि शहरी निकायों के लिए समस्या बन गए हैं। 181 हेल्पलाइन की जानकारी दी, नगर परिषद भीलवाड़ा के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने नगर निकाय द्वारा स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया, कट्स मानव विकास केंद्र के मदन गिरी समन्वयक गौहर महमूद एवं मदन गिरी मौर्या, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी ने कट्स द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी दी, कार्यक्रम में चुरिया मुरिया संस्थान, नेहरू युवा केंद्र, विद्यार्थी फाउंडेशन, अपना संस्थान विकास धारा संस्थान, उपमोक्षा अधिकार समिति, विद्या ज्योति फाउंडेशन, गरिमा फाउंडेशन, सोहेल शिक्षा समिति, बाल व महिला चेतना समिति, श्रीराम निरामया हेल्थ केयर, उपमोक्षा कल्याण समिति, आशा किरण संस्थान, रचना विकास संस्थान, आशा किरण केंद्र अध्यापिकाओं ने भाग लिया।

कट्स संस्थान द्वारा हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन

सचौ तिरोट

भीलवाड़ा कट्स संस्थान द्वारा सतत उपभोग की जीवन शैली एवं संस्कृति विकसित करने हेतु परियोजना के तहत हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन होटल महाराजा, भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया।



को लेकर कई बातें चर्चा की गईं। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया।

कट्स संस्थान द्वारा हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन

राहुल राव/दिव्यांग जगत
कट्स संस्थान द्वारा सतत उपभोग की जीवन शैली एवं संस्कृति विकसित करने हेतु परियोजना के तहत हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन होटल महाराजा, भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया।



इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आदि शहरी निकायों के लिए समस्या बन गए हैं। 181 हेल्पलाइन की जानकारी दी, नगर परिषद भीलवाड़ा के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने नगर निकाय द्वारा स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया, कट्स मानव विकास केंद्र के मदन गिरी मौर्या, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी ने कट्स द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी दी, कार्यक्रम में चुरिया मुरिया संस्थान, नेहरू युवा केंद्र, विद्यार्थी फाउंडेशन, अपना संस्थान विकास धारा संस्थान, उपमोक्षा अधिकार समिति, विद्या ज्योति फाउंडेशन, गरिमा फाउंडेशन, सोहेल शिक्षा समिति, बाल व महिला चेतना समिति, श्रीराम निरामया हेल्थ केयर, उपमोक्षा कल्याण समिति, आशा किरण संस्थान, रचना विकास संस्थान, आशा किरण केंद्र अध्यापिकाओं ने भाग लिया।

में परिवर्तन करके प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान में शहरी निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सतत उपभोग की जीवन शैली एवं संस्कृति विकसित करने हेतु परियोजना के तहत हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन होटल महाराजा, भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में गौरव भीलवाड़ा में किया गया।